

## हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग (HPB)

### प्रारंभिक परीक्षा के लिये:

हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग, HVAC प्रणाली, डे-लाइट हार्वेस्टिंग, ग्रीन वॉलस, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, कार्बन उत्सर्जन, UNEP का 30% दक्षता सुधार लक्ष्य, उन्नत बिल्डिंग, इंटरिअर पर्यावरण भवन।

### मुख्य परीक्षा के लिये:

बढ़ते शहरीकरण और कार्बन उत्सर्जन के मद्देनजर भारत में हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग की आवश्यकता।

स्रोत: द हट्टि

## चर्चा में क्यों?

हाल के वर्षों में हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग (HPB) का महत्त्व बढ़ गया है, जो ऊर्जा दक्षता और स्वस्थ आंतरिक वातावरण को बढ़ावा देती है।

- HPB का अर्थ है, एक ऐसी इमारत जो ऊर्जा दक्षता, स्थायित्व, जीवन-चक्र प्रदर्शन और अधिवासीय उत्पादकता समेत सभी प्रमुख हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग की विशेषताओं को एकीकृत और अनुकूलित करती है।

## HPB की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- ऊर्जा दक्षता:**
  - HVAC प्रणाली (हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग)** का रखरखाव करना: नियमित रखरखाव, जैसे कि फिल्टर को बदलना, कॉइल्स को साफ करना और सेंसर को कैलिब्रेट करना, जो उनकी दक्षता को बनाए रखने और अनावश्यक ऊर्जा खपत को कम करने में सहायक हो सकता है।
  - मांग-नियंत्रित वेंटिलेशन: IoT-** आधारित वायु गुणवत्ता सेंसर स्वचालित रूप से वेंटिलेशन सिस्टम को समायोजित कर सकते हैं, जिससे इमारतें अधिक कुशल और पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील बन सकती हैं।
  - प्रकाश व्यवस्था: ऊर्जा-कुशल LED** विकल्प ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं। **डे-लाइट हार्वेस्टिंग**, जो प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करता है, कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता को और भी कम कर सकता है।
  - इन्सुलेशन में निवेश करना: दीवारों, छतों और फर्श के लिये पर्याप्त इन्सुलेशन**, ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करके हीटिंग और शीतलन की आवश्यकता को कम कर सकता है।
- स्वस्थ इनडोर वातावरण:**
  - इनडोर एयर क्वालिटी को प्राथमिकता देना:** यह प्रदूषकों को कम करने के लिये इनडोर वायु नसिपंदन प्रणालियों का उपयोग करता है।
  - ध्वनि और ध्वनिकी: ध्वनि-अवशोषण सामग्री** और प्रभावी इमारतों में ध्वनि-प्रदूषण को कम करने में सहायता कर सकते हैं।
  - बायोफिलिक डिज़ाइन:** प्राकृतिक तत्वों को शामिल करना, जैसे कि **ग्रीन वॉलस**, **इनडोर ट्री** और **जल संबंधी** सुविधाएँ, रहने वालों के मानसिक कल्याण को बढ़ाती हैं।
- स्थिरता और पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - संधारणीय सामग्री: पुनर्चक्रित इस्पात**, संधारणीय स्रोत से प्राप्त लकड़ी और **न्यून प्रभाव वाली कंक्रीट** इमारतों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - जल संरक्षण और दक्षता:** वर्षा जल संचयन और **ग्रेवाटर रिसाइकलिंग** प्रणालियाँ जल संरक्षण को बढ़ावा देती हैं।
  - अपशिष्ट में कमी और प्रबंधन:** भवन की संधारणीयता और उसके संचालन के लिये अपशिष्ट में कमी, पुनर्चक्रण और उचित प्रबंधन आवश्यक है।

## हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग की क्या आवश्यकता है?

- **कार्बन उत्सर्जन:** वैश्विक स्तर पर, इमारतें अपने जीवनकाल में कुल अंतिम ऊर्जा खपत का लगभग 40% भाग का नरिमाण करती हैं।
  - इससे लगभग 28% ऊर्जा-संबंधी कार्बन उत्सर्जन होता है।
  - **ऊर्जा दक्षता बयरो** के अनुसार, भारत में इमारतें राष्ट्रीय ऊर्जा उपयोग का 30% से अधिक तथा कार्बन उत्सर्जन का 20% भाग हैं।
- **वर्ष 2040 तक वदियुत प्रणाली को चौगुना करना:** बढ़ती वदियुत मांग को पूरा करने के लिये भारत की वदियुत प्रणाली को वर्ष 2040 तक आकार में चौगुना करना होगा।
  - इसके अतरिकित भारतीय इमारतों में **उच्च शहरी तापमान**, चमकदार अग्रभाग और अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण ऊर्जा उपयोग में वृद्धि देखी जा रही है।
  - HPB नवीन समाधानों के माध्यम से ऊर्जा की मांग को काफी हद तक कम कर सकते हैं।
- **बढ़ता शहरीकरण:** भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक 600 मिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है।
  - जैसे-जैसे शहरों का वसितार होता है, नए नरिमाण की मांग बढ़ती है और बगेर कसिी हस्तकषेप के, इस कषेत्तर का **कार्बन फुटप्रिंट** वृद्धि देखने को मलि सकती है।
- **वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति:** बढ़ती ऊर्जा मांग और तेजी से बढ़ते नरिमाण कषेत्तर के कारण, भारत के लिये **अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी**, भवन प्रमाणन कार्यक्रमों और यूरोपीय संघ के भवनों के ऊर्जा प्रदर्शन नरिदेश द्वारा नरिधारति भवनों के लिये **वैश्विक ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन मानकों को पार करने का जोखमि है**।
  - **UNEP** का 30% दक्षता सुधार लक्ष्य इस बात पर बल देता है कि जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिये वैश्विक भवन कषेत्तर को वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा दक्षता में 30% सुधार करना होगा।
- **कम परचालन लागत:** HPB अनुकूलन के परणामस्वरूप 23% ऊर्जा उपयोग को न्यूनतम करना, 28% जल उपयोग को न्यूनतम करना, तथा 23% तक भवन परचालन व्यय भी न्यूनतम हो सकता है।
- **उत्पादकता में सुधार:** स्वस्थ आंतरिक वातावरण उपलब्ध कराने से **नवासियों की संतुष्टि बढ़ती है**, उत्पादकता बढ़ती है तथा उत्पन्न होने वाले रोगों की अनुपस्थिति भी बढ़ती है।

//



## HPB से संबंधित उपकरण क्या हैं?

- **लेडीबग:** यह दृश्य, सूर्यपथ और वकिरिण वशिलेषण के माध्यम से डज़ाइन संबंधी वकिल्पों का आकलन करने के लिये 2D और 3D इंटरैक्टिव ग्राफिक्स में वसितृत जलवायु वशिलेषण और डेटा प्रदान करता है।
- **ग्रीन बलिडगि स्टूडियो:** यह एक क्लाउड-आधारित सेवा है, जो ऊर्जा अनुकूलन हेतु बलिडगि परफॉर्मंस समिलेशन चला सकती है।
- **कोव.टूलस:** यह आर्कटिक्ट्स और इंजीनियरों को संधारणीय डज़ाइन का समाधान प्राप्त करने के लिये डेटा-संचालित डज़ाइन का उपयोग करने की अनुमति देता है।
- **क्लाइमेट स्टूडियो:** यह दिन के प्रकाश, ऊर्जा दक्षता, तापीय सहषिणु और अधवासित लोगों के स्वास्थ के अन्य उपायों के लिये समिलेशन के लिये सबसे अच्छा काम करता है।

## भारत में HPB के उल्लेखनीय उदाहरण

- **ग्रेटर नोएडा में उन्नत बलिडगि:** इस HPB में तापीय सहषिणु और ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिये सूर्यपथ के अनुसार डज़ाइन किया गया एक अग्रभाग है। इमारत में चमक को कम करने और ऊर्जा प्रदर्शन को बढ़ाने के लिये न्यूनतम सौर ताप के लाभ गुणांक के साथ उच्च प्रदर्शन वाले ग्लास का उपयोग किया गया है।
- **नई दलिली में इंदरि पर्यावरण भवन:** इस भवन में उन्नत HVAC सिस्टम का उपयोग किया गया है, जो छत में बीम के माध्यम से शीतल जल प्रसारित करता है, तथा ऊर्जा की खपत को कम करने के लिये प्राकृतिक संवहन का उपयोग करता है।
- **शुद्ध-शून्य और ग्रेडि-इंटरैक्टिव बलिडगि:** भारत में HPB शुद्ध-शून्य इमारतों के लिये भी मार्ग तैयार कर रहे हैं, जो उतनी ही ऊर्जा और जल उत्पन्न करते हैं जितनी वे खपत करते हैं, ग्रेडि-इंटरैक्टिव बलिडगि, जो ऊर्जा की मांग को गतिशील रूप से प्रबंधित करती है।

## हाई परफॉर्मंस बलिडगि के निर्माण में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **परिचालन संबंधी अनदेखी:** डेवलपरस आमतौर पर प्रारंभिक परियोजना लागत, कार्यक्रम और डज़ाइन के दायरे को प्राथमिकता देते हैं, तथा परिचालन अवस्था और दीर्घकालिक ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और रखरखाव को नज़रअंदाज कर देते हैं।
- **विविध प्रकार के भवन:** कार्यालय भवन प्रकार, लागत, सेवाओं और आराम के स्तर के संदर्भ में बहुत भिन्न होते हैं।
  - कुछ इमारतों में वकिन्द्रीकृत शीतलन प्रणालियाँ होती हैं जो ऊर्जा कुशल नहीं होती हैं, जबकि कुछ इमारतें केंद्रीयकृत वातानुकूलित होती हैं, इनमें हाई ग्लेज़िंग देखने को मिलती है, तथा ऊर्जा की खपत भी अधिक होती है।
- **वर्भाजन:** ऊर्जा बचत परियोजनाओं को अक्सर कम समर्थन मिलता है क्योंकि ऊर्जा दक्षता सुधारों से कौनसे लाभ मिलता है, इस पर मतभेद है। उदाहरण के लिये, मालिकों या करियेदारों द्वारा रखरखाव।
- **स्वदेशी ज्ञान का कषरण:** कषेत्-वशिष्ट वधियाँ, जो लागत प्रभावी हैं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हैं, वदिशी प्रौद्योगिकियों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण लुप्त हो रही हैं, जो भारतीय संदर्भ में उतनी कुशल नहीं हो सकती हैं।
- **सलिड बलिडगि सिस्टम:** बलिडगि डज़ाइन, निर्माण और संचालन को प्रायः अलग-अलग माना जाता है। यह खंडित दृष्टिकोण उन तकनीकों के एकीकरण को रोकता है जो समग्र बलिडगि परफॉर्मंस को बेहतर बना सकते हैं।

## बलिडगि में ऊर्जा दक्षता के संबंध में भारत की क्या पहल हैं?

- [इको-नविस संहिता](#)
- [ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता \(ECBC\)](#)
- [ऊर्जा संरक्षण \(संशोधन\) अधिनियम, 2022](#)
- [नीरमन पुरसकार](#)
- [एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिये ग्रीन रेटिंग \(ग्रह\)](#)

## भारत में हाई परफॉर्मंस बलिडगि को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है?

- **आवरण और नषिक्रयि प्रणालियाँ:** दीवार, खडिकियाँ, छत संयोजन, परावर्तक सफेद सतहें और छाया जैसी आवरण संबंधी रणनीतियाँ सौर ताप के जोखिम से बचा सकती हैं, और जहाँ संभव हो, प्राकृतिक वेंटिलेशन का समर्थन कर सकती हैं।
- **एकीकृत दृष्टिकोण:** एक जीवनचक्र नषिपादन आशवासन प्रक्रिया जो भवन संबंधी प्रणालियों के एकीकरण पर बल देती है, उसे पारंपरिक और एकाकी पद्धतियों का स्थान लेना चाहिये।
- **समग्र मूल्यांकन:** एक ट्रपिल-बॉटम-लाइन ढाँचे को अपनाना जो परिचालन, पर्यावरणीय और मानवीय लाभों के आधार पर भवन संबंधी प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों का मूल्यांकन करता है।
  - इस ढाँचे में ऊर्जा बचत, न्यून कार्बन उत्सर्जन तथा नविसयियों के स्वास्थ और उत्पादकता में सुधार पर वचिार किया जाना चाहिये।
- **सहयोगात्मक ऊर्जा दक्षता पहल:** मालिकों और करियेदारों के बीच सहयोगात्मक पहल को प्रोत्साहित करना जो ऊर्जा दक्षता उन्नयन में उनके हतियों को संरेखित करते हैं, तथा स्थरिता लक्ष्यों के लिये साझा प्रतबिद्धता का निर्माण करते हैं।
- **अनुकूलित रणनीतियाँ:** कषेत्-वशिष्ट, जलवायु-उत्तरदायी समाधानों जैसे उच्च-प्रदर्शन आवरण डज़ाइन, कम-ऊर्जा शीतलन रणनीतियाँ और

अनुकूली कम्फर्ट तकनीक का समर्थन करना ।

- **हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम (HVAC):** उन स्थानों को अलग करना, जहाँ प्राकृतिक रूप से वेंटिलेशन हो सकता है और सभी निर्मित स्थानों को हर समय पूर्ण रूप से वातानुकूलित करने के बजाय, मश्रिति-मोड के अवसर वकिसति करना ।

**दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:**

**प्रश्न:** बढ़ते शहरीकरण और कार्बन उत्सर्जन से उत्पन्न चुनौतियों पर वचिर करते हुए, भारत में हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग की आवश्यकता का आलोचनात्मक वश्लेषण कीजयि ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/high-performance-buildings-hpbs->

